

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन जनरल सं.

अगस्त 2011

The Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Journal No: August 2011

---

भारत सरकार,

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री

Government of India

The Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Registry

---

निर्गमन सं 03/2011

सोमवार

दिनांक 01/08/2011

Issue No. 03/2011

MONDAY

DATE:01/08/2011

---

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 के अधीन विज्ञापन  
भारत सरकार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री, रजिस्ट्रार कार्यालय,

Published under Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act, 2000

by Government of India, Office of the Registrar, Semiconductor Integrated Circuits Layout Design  
Registry,

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

Ministry of Communications and Information Technology

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

Department of Information Technology

इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन

Electronics Niketan

6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003

6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003.

Tel:011-24364773, Fax: 011-24365436

## अनुक्रमणिका INDEX

- क. आधिकारिक टिप्पणियां  
A. Official Notes
- ख. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री कार्यालय का अधिकार क्षेत्र  
B. Jurisdiction of Office of the Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Registry,
- ग. स्वीकृति के पश्चात विज्ञापित आवेदन  
C. Applications advertised after acceptance
- घ. आवेदन में शुद्धि या संशोधन करने की अधिसूचना  
D. Notification of correction or amendment of application

- ख. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री कार्यालय का अधिकार क्षेत्र  
B. Jurisdiction of Office of the Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Registry,

असाधारण भाग-II - खण्ड 3 - उप खण्ड (ii) के जरिए प्राधिकार सं. 219 नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 1, 2004/फाल्गुन 11, 1925, द्वारा प्रकाशित अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (एस. आई. सी. एल. डी. आर.) का मुख्य कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 में स्थित है। इसकी राज्यक्षेत्रीय परिसीमाएं जिसके भीतर अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का कार्यालय अपने कृत्य कर सकेगा, सम्पूर्ण भारत पर है।

(सुनील अलग)

रजिस्ट्रार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री

Vide Extraordinary Gazette Notification Part II-Section 3-Sub-section (ii) Published by authority No. 219 New Delhi, Monday, March 1, 2004 / Phalguna 11, 1925, the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry (SICLDR) has its head office located in the Department of Information Technology, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi. The territorial limits within which such office of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry may exercise its functions shall be the whole of India.

(SUNIL ALAG)

REGISTRAR, SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUITS LAYOUT-DESIGN REGISTRY

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन जनरल सं.

अगस्त 2011

The Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Journal No: August 2011

---

क. आधिकारिक टिप्पणियां

A. Official Notes

रजिस्ट्री आम जनता के लिए प्रातः 10.00 बजे से सांयः 4.00 बजे तक हर कार्य दिवस पर खुलेगी ।

(सुनील अलग)

रजिस्ट्रार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री

The Registry is opened for public dealing from 10 am to 4 pm on all working days.

(SUNIL ALAG)

REGISTRAR, SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUITS LAYOUT-DESIGN REGISTRY

## प्रस्तावना

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री 1 मई, 2011 से सेमीकंडक्टर एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत चालू की गई है। अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन जनरल का प्रकाशन अपेक्षित है। इस जनरल का प्रकाशन महीने के पहले कार्य दिवस पर मासिक आधार पर किया जाएगा। इस जनरल से संबंधित सभी पूछ-ताछ अथवा कोई भी अन्य अपेक्षित सूचना रजिस्ट्रार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री को संबोधित की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार के सुझावों तथा टिप्पणियों का स्वागत है।

(सुनील अलग)

रजिस्ट्रार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री

## INTRODUCTION

The Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry has been made operational w.e.f. 1<sup>st</sup> May 2011 under the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000. In accordance with the provisions under the Act "The Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Journal" is required to be published. This Journal is being published on monthly basis on the 1<sup>st</sup> working day of the month. All the enquiries related to this Journal or any other information as required should be addressed to the Registrar, Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry. Any suggestions and comments are welcome.

(SUNIL ALAG)

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन जनरल सं.

अगस्त 2011

The Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Journal No: August 2011

घ. आवेदन में शुद्धि या संशोधन करने की अधिसूचना - शून्य

D. Notification of correction or amendment of application - Nil

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन जनरल सं.

अगस्त 2011

The Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Journal No: August 2011

ग. स्वीकृति के पश्चात विज्ञापित आवेदन – कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

C. Applications advertised after acceptance – no application received.